

जनपद बाराबंकी

दिनांक-29.06.2022

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट-45) बाराबंकी ने अभियुक्तगण को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 21,000 रुपये अर्थदण्ड से किया दण्डित -

जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट-45) बाराबंकी द्वारा थाना कोठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 49/2015 धारा 365/366/376डी/452/323/504/506 भादवि में अभियुक्तगण 1- रज्जन 2- श्री केशन पुत्रगण लक्ष्मीनारायन मल्लाह निवासी खानापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी 3- बऊवा उर्फ हंसराज पुत्र नन्द किशोर निवासी घुसकर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्तगण को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 21,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त धाराओं में अभि0गण रामसिंह, लक्ष्मी नारायन, हरबादीन को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना कोठी क्षेत्रान्तर्गत निवासी ने अपनी पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा दुष्कर्म करने व मारने पीटने व धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 08.04.2015 को थाना कोठी पर प्रार्थना पत्र दिया। उक्त के आधार पर मु0अ0सं0-49/2015 धारा 365/366/376डी/452/323/504/506 भादवि बनाम 1-रज्जन 2-श्रीकेशन 3-रामसिंह पुत्रगण लक्ष्मीनारायन मल्लाह निवासी खानापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी 4- बऊवा उर्फ हंसराज पुत्र नन्द किशोर निवासी घुसकर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ 5- लक्ष्मी नारायन पुत्र बाबू 6-हरबादीन पुत्र बाबू निवासी खानापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी मे पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री राकेश प्रताप सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 2-उ0नि0 श्री रामनरेश मिश्रा मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 4- म0का0 प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 5-का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 6- का0 सन्दीप कुमार मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 7- का0 पैरोकार सुजीत, का0 पैरोकार महेन्द्र वर्मा कोठी जनपद बाराबंकी